

Course Code: 2MA SANS 1
Course: वेद एवं वेदाङ्ग –II
Credit: 4
Last Submission Date: October 31, (for January Session)
April 30, (for July session)

Max. Marks:-30
Min. Marks:-11

Note:-attempt all questions.

प्र.1 निम्न का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए—

(अ) अथ निपाताः उच्चावचेष्वर्थेषु निपसन्ति ।

अप्युपमार्थे, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे अपि पदपूरव्यः ।

(ब) तेषामेत चत्वार उपमार्थे भवन्ति । इवेति भाषायां

च अन्वध्याय च । अग्निरिव इन्द्र इव इति ।

प्र.2 निरुक्त का महत्त्व प्रतिपादित कीजिए ।

प्र.3 सप्रसङ्ग व्याख्या कीजिए—

(अ) हिरण्यनामानि उत्तराणि पञ्चदश हिरण्यं कस्मात्

ध्रियसे आयम्यमानमिति वा दिवसे जनाज्जनमिति

वा हितरमणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति वा ।

हर्यं सेर्वा स्यात् प्रेप्सा कर्मणाः ।

प्र.4 वेदाङ्गो में निरुक्त का स्थान निरूपित कीजिए ।

प्र.5 ऋट्कप्रतिशारव्य का प्रयोजन एवं महत्त्व निरूपित कीजिए ।

प्र.6 निम्न का सप्रसंग व्याख्या कीजिए—

(अ) अष्टौ समाना त्क्षराष्यादितः ।

(ब) तत्तश्चत्वारि संध्यक्षराण्युत्तराणि ।

प्र.7 शत्पथ ब्राह्मण त्वष्टा पुत्र विश्व रूप की कथा का सारांश लिखिए ।

प्र.8 संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए—

(अ) संनिवेशस्तयोर्यं विश्वरूप वीर्यवार

त्वष्टदैत्यानुजा आर्यरचना नाम कन्यका.

नासत्याभ्यां परिश्रितः ॥

— — — — विश्वैदैवैष्व साध्यैश्च

(ब) नाम्यन्दस सप्राप्त । प्रत्युत्थानासमादिभिः ।

वाचस्पति मुनिवरं सुरासुर नास्कृतं ॥

प्र.9 निम्न की सप्रसङ्ग व्याख्या कीजिए—

(अ) स्वराविरातिरकेश्च स्पर्शाना पञ्चविंशतिः ।

यादश्च स्मृता ह्रष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः ॥

(ब) आत्मा बुद्ध्या समेत्ययनि मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्नि माहति स प्रेरयति मारुतम् ॥

प्र.10 पाणिनोयशिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या का निरूपण कीजिए?